



सं. 1:05:138:II:सी  
दिनांक: 30 जुलाई, 2019

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, तल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति**

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, हम एतद्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति की निम्नानुसार सूचना देते हैं:-

गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री आर सी मिश्रा की नियुक्ति:

बदलाव के कारण	विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई 2019 के पत्र सं. 20/6/2017-समन्वय के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने दिनांक 30 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में श्री आर सी मिश्रा को 11 जुलाई 2019 से कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
नियुक्ति की तारीख	11 जुलाई, 2019
संक्षिप्त प्रोफाइल	66 वर्षीय श्री आर सी मिश्रा ने अपना करियर वर्ष 1977 में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शुरू किया। उसके बाद ये 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में आए। इनके पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) और यूनिवर्सिटी ऑफ ल्युब्ल्याना, स्लोवेनिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। लगभग 4 दशकों के लंबे करियर के दौरान इन्होंने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थानों, मणिपुर सरकार और भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यपालक निदेशक, ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (प्रसार भारती), संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त सचिव, मणिपुर सरकार, विद्युत सचिव, मणिपुर सरकार, उद्योग सचिव/निदेशक, मणिपुर सरकार, शिक्षा सचिव, मणिपुर सरकार, पर्यटन सचिव, मणिपुर सरकार आदि शामिल हैं। श्री मिश्रा की शैक्षिक क्षेत्र में अत्यधिक रुचि है, विशेष रूप से लोक नीति और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के क्षेत्र में। इन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए विभिन्न रिपोर्टें/पेपर तैयार किए हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ बतौर सीनियर विजिटिंग फेलो कार्य किया। ये यूएनईपी, यूनेस्को और यूनिसेफ आदि सहित कई अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ विभिन्न हैसियतों से भी जुड़े थे।
निदेशकों के बीच संबंध	कोई नहीं

इसके अतिरिक्त, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, श्री आर सी मिश्रा सेबी के किसी आदेश या किसी अन्य प्राधिकार की वजह से निदेशक का पद धारण करने से विवर्जित नहीं हैं।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,  
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)  
कंपनी सचिव  
mb@pfcindia.com